



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 756 राँची, बुधवार

1 अगस्त, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

15 फरवरी, 2018

संख्या – 5/आरोप – 1-147/2017-148 (HRMS)-- श्री अरुण उराँव, झा०प्र०से०, चतुर्थ बैच, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नावाडीह, बोकारो, सम्प्रति-निलंबित को निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक 9 अक्टूबर, 2017 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण विभागीय आदेश सं०- 10456, दिनांक 9 अक्टूबर, 2017 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गिकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि 19 सितम्बर, 2017 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया है ।

Sr. No	Employee Name (G.P.F No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	ARUN ORAON (110043181678)	Suspension of Sri Arun Oraon	01/12/2017

- 2 श्री उराँव द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2017 को हिरासत से मुक्त होने के बाद दिनांक 1 दिसम्बर, 2017 को विभाग में योगदान समर्पित किया हैं ।
3. अतएव झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(3)(i) के तहत श्री उराँव द्वारा योगदान दिये जाने की तिथि 1 दिसम्बर, 2017 से योगदान स्वीकृत किया जाता हैं तथा उक्त नियमावली के नियम-9(3)(ii) के आलोक में 9(1)(क) के तहत योगदान की तिथि 1 दिसम्बर, 2017 से अगले आदेश तक पुनः निलंबित किया जाता हैं ।
4. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का कार्यालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची निर्धारित किया जाता है, जहाँ वे प्रतिदिन बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अंतर्गत उपस्थिति दर्ज करेंगे के तथा उपस्थिति के आधार पर ही इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,

सरकार के संयुक्त सचिव

जीपीएफ संख्या : BHR/BAS/2502
